

उत्तराखंड में निवेश की अपार संभावना

By : Editor Published On : 21 Sep, 2019 04:53 PM IST



आई एन वी सी न्यूज़

मुम्बई,

मुम्बई में शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से उद्योगपति श्री पवन गोयनका, श्री आदि गोदरेज, श्री मोहनदास पाई, श्री अजय पिरामल ने मुलाकात की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश की अपार संभावना है। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश करने वाले सभी उद्यमियों को हर सम्भव सहयोग दिया जाएगा। उत्तराखण्ड का शांत वातावरण एवं कुशल मानव संसाधन उद्योगों के लिए अनुकूल है। राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सुविधा शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र से मुलाकात करते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के चैयरमैन पवन गोयनका ने कहा कि उत्तराखंड में तेजी से विकास हो रहा है। हमारा समूह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कार्य कर रहा है। उत्तराखंड को लेकर भी हमारी योजनाएँ हैं, जिन पर कार्य चल रहा है। उन्होंने राज्य में हवाई सेवा को और बेहतर करने पर जोर दिया, ताकि राज्य में पर्यटन क्षेत्र में और अधिक निवेश हो सके।

गोदरेज समूह के अध्यक्ष श्री आदि गोदरेज ने कहा कि उनका उत्तराखंड के भगवानपुर में प्लांट लगा है। उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में भी निवेश की अपार संभावना है।

मणिपाल एजुकेशन समूह के अध्यक्ष श्री टी.वी.मोहनदास पाई ने कहा कि उत्तराखण्ड को हेंडीक्राफ्ट, आई.टी एवं पर्यटन क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। राज्य को डिजिटल राज्य के रूप में विकसित करना चाहिए, इससे पर्यटन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि उनका समूह हर संभव सहयोग देने को तैयार है।

हीरानंदानी समूह के एम डी श्री निरंजन हीरानंदानी, पिरामल समूह के अध्यक्ष श्री अजय पिरामल, मारुति सुजुकी के अध्यक्ष श्री आर.सी. भार्गव आदि ने भी मुख्यमंत्री श्री रावत से भेंट कर राज्य में निवेश के प्रति रुचि दिखाई।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव उद्योग श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव वित्त श्री अमित नेगी, मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार श्री के.एस. पंवार, निदेशक आई.टी श्री अमित सिन्हा आदि उपस्थित थे।

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/उत्तराखंड-में-निवेश-की-अप/>



12th year of news and views excellency

Committed to truth and impartiality

Copyright © 2009 - 2019 International News and Views Corporation. All rights reserved.

www.internationalnewsandviews.com